



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941
No. 379]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

सं. 14/1/सी-1/2019.—लोक सभा के दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 के समाचार भाग - दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा को आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

“संख्या 875

समिति शाखा - एक

लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन

(नौवां संस्करण)

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में लोक सभा अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं -

1. वर्तमान निदेश 27 को निदेश 27क के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और 27 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित नया निदेश जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

विधेयकों की संख्या
की सीमा

27. किसी सदस्य को एक सत्र के दौरान तीन से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां किसी सदस्य से प्राप्त विधेयकों की सूचनाएं तीन से अधिक हैं, वहां पहली तीन ग्राह्य सूचनाओं पर विचार किया जाएगा, यदि सदस्य ने अधिमान-क्रम को नहीं दर्शाया हो।

2. वर्तमान निदेश 42 को निदेश 42क के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और 42 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित नया निदेश जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूचना अथवा कटौती प्रस्तावों की संख्या की सीमा

42. किसी सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में दस से अधिक संशोधन और अनुदान की मांग पर दस से अधिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। जहां किसी सदस्य से धन्यवाद प्रस्ताव पर प्राप्त होने वाली संशोधनों की सूचनाएं अथवा मांग पर कटौती प्रस्तावों की संख्या 10 से अधिक है, वहां पहले दस ग्राह्य संशोधनों अथवा कटौती प्रस्तावों, जैसा भी मामला हो, पर विचार किया जाएगा, यदि सदस्य ने अधिमान-क्रम को नहीं दर्शाया हो।

स्नेहलता श्रीवास्तव,
महासचिव"

अधिप्रमाणित

स्नेहलता श्रीवास्तव, महासचिव

LOK SABHA NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

No. 14/1/C-I/2019.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II dated 4 December, 2019, is hereby published for general information:—

"No. 875

Committee Branch-I

Amendments to the Directions by the Speaker, Lok Sabha (Ninth Edition)

In pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions:

1. The existing Direction 27 shall be renumbered as Direction 27A and the following new Direction numbered as 27 shall be added, namely :—

Limit of number of Bills 27. A member shall be permitted to introduce not more than three private member's Bills during a session. Where notices of Bills received from a member are in excess of three, the first three admissible notices shall be taken into consideration, unless the member has indicated the preference.

2. The existing Direction 42 shall be renumbered as Direction 42A and the following new Direction numbered as 42 shall be added, namely :—

Limit of number of notices of amendments to Motion of Thanks or of cut motions. 42. A member shall be permitted to move not more than ten amendments to the Motion of Thanks on the Address by the President or not more than ten cut motions to a demand for grant. Where notices of amendments to the Motion of Thanks or of cut motions to a demand received from a member are in excess of ten, the first ten admissible amendments or cut motions, as the case may be, shall be taken into consideration, unless the member has indicated the preference.

SNEHLATA SHRIVASTAVA,
Secy.-General."

CERTIFIED

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Secy.-General.